

तुरंत रिलीज के लिए

ब्रैम्पटन ने साउथ फ्लेचर्स स्पोर्ट्सप्लेक्स में कम्युनिटी यूथ हब बनाने में फेडरल और प्रोविंसियल निवेश सुरक्षित किए

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (5 मार्च, 2021) – आज, मेयर पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown); ब्रैम्पटन सिटी काउंसलर्स; फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटीज, माननीय कैथरीन मकैना (Catherine McKenna) की ओर से, ब्रैम्पटन साउथ के लिए मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट, सोनिया सिद्धू (Sonia Sidhu); ओनटैरियो के मिनिस्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, माननीय लॉरी स्कॉट (Laurie Scott) की ओर से, एसोसिएट मिनिस्टर ऑफ स्मॉल बिजनेस एंड रेड टेप रिडक्शन और ब्रैम्पटन साउथ के लिए मेम्बर ऑफ प्रोविंसियल पार्लियामेंट, माननीय प्रबमीत सरकारिया (Prabmeet Sarkaria); और ब्रैम्पटन वेस्ट के लिए मेम्बर ऑफ प्रोविंसियल पार्लियामेंट, अमरजोत संधू (Amarjot Sandhu) ने, ब्रैम्पटन में साउथ फ्लेचर्स स्पोर्ट्सप्लेक्स (South Fletcher's Sportsplex) में बनने वाले कम्युनिटी यूथ हब (Community Youth Hub) के लिए फंडिंग की घोषणा की।

कैनेडा सरकार, *इन्वेस्टिंग इन कैनेडा (Investing in Canada)* प्लान की कम्युनिटी, कल्चर एंड रेक्रिएशन इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रीम (सी.सी.आर.आई.एस.) (Community, Culture and Recreation Infrastructure Stream) (CCRIS) के द्वारा, इस प्रोजेक्ट में 565,000 डालर का निवेश कर रही है। ओनटैरियो सरकार, 470,786 डालर प्रदान कर रही है, जबकि सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, 376,714 डालर प्रदान कर रही है।

साउथ फ्लेचर्स स्पोर्ट्सप्लेक्स में कम्युनिटी यूथ हब, ब्रैम्पटन के युवाओं के सुरक्षित और सुलभ जगह प्रदान करेगा, जहां वे युवा-विशेष प्रोग्रामों, सेवाओं और गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे। साउथ फ्लेचर्स स्पोर्ट्सप्लेक्स में कुछ मौजूदा कमरों को, युवाओं के लिए गतिविधियों और संसाधनों हेतु, खुली कॉन्सेप्ट वाली, समर्पित जगह में बदला जाएगा।

युवा-केंद्रित जगहों तक पहुंच को बढ़ाना, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के [पार्क्स एंड रेक्रिएशन मास्टर प्लान \(Parks and Recreation Master Plan\)](#) का हिस्सा है। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की योजना है कि दो रेक्रिएशन सेंटरों - साउथ फ्लेचर्स स्पोर्ट्सप्लेक्स और सेंचुरी गार्डन्स रेक्रिएशन सेंटर (Century Gardens Recreation Centre) को - कम्युनिटी यूथ हब्स में बदल दिया जाए, जो युवाओं को सुरक्षित और स्वागती जगहें पेश करेंगे, जहां पूरे शहर के युवाओं के लिए सेवाओं और गतिविधियों हेतु वन-स्टॉप शॉप्स के तौर पर काम होगा।

निवासियों और स्टेकहोल्डर्स के साथ [सिटी की मशविरा प्रक्रिया \(the City's consultation process\)](#) से मिले सुझावों के साथ, दोनों, कम्युनिटी यूथ हब्स की डिज़ाइन प्रक्रिया, सर्दी 2021 में शुरू होगी।

यूथ फ्रेंडली कम्युनिटी पदवी

मार्च 2020 में, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को, प्ले वर्क्स (Play Works) द्वारा प्लैटिनम यूथ फ्रेंडली कम्युनिटी (Platinum Youth Friendly Community) की पदवी मिली थी। यह पार्क्स एंड रेक्रिएशन ओनटैरियो (Parks and Recreation Ontario) द्वारा हिमायत वाला प्रोग्राम है। यह तीसरी बार है, जब सिटी को युवाओं के लिए वृद्धि और विकास के अवसरों के लिए, इसकी शानदार प्रतिबद्धता के लिए

मान्यता दी गई है। सिटी, इस साल टॉप प्लैटिनम पदवी प्राप्त करने वाले तीन समुदायों में से एक है। अधिक जानने के लिए [यहां क्लिक करें \(Click here\)](#)।

लिंक

- [मीडिया रिलीज: ब्रैम्पटन में साउथ फ्लेचर्स स्पोर्ट्सप्लेक्स में कम्युनिटी यूथ हब बनाने के लिए कैनडा और ओन्टारियो का निवेश \(Media Release: Canada and Ontario Invest to Create a Community Youth Hub at South Fletcher's Sportsplex in Brampton\)](#)
- [कम्युनिटी यूथ हब्स \(Community Youth Hubs\)](#)
- [पार्क्स एंड रेक्रिएशन मास्टर प्लान \(Parks and Recreation Master Plan\)](#)
- [यूथ फ्रेंडली कम्युनिटी पदवी \(Youth Friendly Community Designation\)](#)

हवाले

“हम, साउथ फ्लेचर्स स्पोर्ट्सप्लेक्स में ब्रैम्पटन के कम्युनिटी यूथ हब में, कैनडा सरकार और ओन्टारियो सरकार के निवेशों का स्वागत करते हैं। ब्रैम्पटन, कैनडा में सबसे अधिक युवा आबादी वाले शहरों में से एक है, जिसमें 14 से 29 वर्ष के 130,000 से अधिक युवा हैं। कम्युनिटी यूथ हब्स, विविधता और बराबरी के लिए प्रोत्साहित करेंगे, नवीन भागीदारी को बढ़ाएंगे और युवाओं के लिए सुरक्षित जगहें प्रदान करेंगे। साथ ही, ये हमारी टर्म ऑफ काउंसिल प्रायरिटी में बढ़ोतरी करेंगे कि ब्रैम्पटन एक स्वस्थ और सुरक्षित शहर है।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन के कम्युनिटी यूथ हब्स में एक में फेडरल और प्रोविंसियल निवेश, ब्रैम्पटन के युवाओं के ये जगहें बनाने में हमारे सफर में, एक रोमांचक विकास है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम सहयोगात्मक ढंग से युवाओं की जरूरतों के लिए खास प्रोग्रामों और सेवाओं हेतु, ये गतिशील जगहें बनाने के लिए उन्हें शामिल कर रहे हैं।”

- रोएना सैंटोस (Rowena Santos), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; चेयर, कम्युनिटी सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“वार्ड 4 के काउंसलर्स होने के नाते, हमने सिटी और रीजनल काउंसिल में, ब्रैम्पटन में दो युवा हब्स के विकास की हिमायत की है। हम प्रोविंसियल और फेडरल सरकारों द्वारा आज के निवेश का स्वागत करते हैं, जो इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाता है और ब्रैम्पटन में युवाओं के लिए नए मौके पैदा करेगा। सिटी ने इस प्रोजेक्ट के लिए सक्रिय तौर पर, क्षेत्र के युवाओं से उनके दृष्टिकोण के बारे में सुझाव मांगे हैं। हम साउथ फ्लेचर्स स्पोर्ट्सप्लेक्स में यूथ हब का विकास करते समय, उनके सुझावों को शामिल करने के लिए उत्साहित हैं।”

- मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4; और जेफ बोमैन (Jeff Bowman), मिटी काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी का स्टाफ, हमारे युवाओं की जरूरतों के लिए विशेष, इन युवा जगहों की योजना बनाने और इन्हें तैयार करने के लिए समर्पित है। यह निवेश, साउथ फ्लेचर्स स्पोर्ट्सप्लेक्स में कम्युनिटी यूथ हब बनाने में हमें सहयोग करेगा। हम हमारे स्टेकहोल्डर्स के साथ काम जारी रखने के लिए और इन युवा-विशेष जगहों को स्थापित करने के लिए, हमारे युवाओं को शामिल करने के लिए उत्साहित हैं।”

- डेविड बैर्रिक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“रेक्रिएशन सेंटरों में निवेश करने से, लोगों के स्वास्थ्य और तंदरुस्ती में वृद्धि होती है। साथ ही यह ऐसे भागीदारी वाले और स्थिर समुदाय बनाता है, जहां लोग रहना, काम करना और परिवारों की परवरिश करना चाहते हैं। साथ फ्लेचर्स का यूथ हब, ब्रैम्पटन के हर पृष्ठभूमि वाले युवाओं को सुरक्षित जगह प्रदान करेगा, जिसमें वे हिस्सा ले सकेंगे और जिससे फायदा ले सकेंगे। पेश किए गए विविध प्रोग्राम और सेवाएं भी, भविष्य के समुदाय के विकास में योगदान देंगे। कैनेडा का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान, हज़ारों प्रोजेक्ट्स में निवेश करता है, पूरे देश में नौकरियां पैदा करता है और अधिक साफ-सुथरे, अधिक भागीदारे वाले समुदाय बनाता है।”

- सोनिया सिद्धू (Sonia Sidhu), ब्रैम्पटन साउथ के लिए मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट, फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटीज, माननीय कैथरीन मकैना (Catherine McKenna) की ओर से

“आज ब्रैम्पटन की रेक्रिएशनल जगहों में निवेश करके, हम आने वाले वर्षों हेतु, हमारे समुदाय की लंबी-अवधि की वृद्धि और विकास में निवेश कर रहे हैं। साथ फ्लेचर्स स्पोर्ट्सप्लेक्स में बनने वाला नया यूथ हब, हमारे युवाओं को एकत्र होने के लिए जगह प्रदान करेगा और हमारे समुदाय को जुड़ने के लिए नई जगहें प्रदान करेगा।”

- माननीय प्रबमीत सरकारिया (Prabmeet Sarkaria), एसोसिएट मिनिस्टर ऑफ स्मॉल बिजनेस एंड रेड टेप रिडक्शन और ब्रैम्पटन साउथ के लिए मेम्बर ऑफ प्रोविंसियल पार्लियामेंट, ओनटैरियो के मिनिस्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, माननीय लॉरी स्कॉट (Laurie Scott) की ओर से

“साउथ फ्लेचर्स के यूथ हब जैसे लोकल रेक्रिएशनल फैसिलिटी जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग प्रदान करके, हमारे म्युनिसिपल साझेदारों की हिमायत करने से, अधिक मजबूत, खुशहाल, सुरक्षित और स्वस्थ समुदाय बनते हैं। हमारे लोकल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में यह निवेश, ब्रैम्पटन के युवाओं के लिए जीवन गुणवत्ता में सुधार करेगा, जब हमारा समुदाय लगातार आगे बढ़ रहा है और इसका विस्तार हो रहा है”

- अमरजोत संधु (Amarjot Sandhu), ब्रैम्पटन वेस्ट के लिए मेम्बर ऑफ प्रोविंसियल पार्लियामेंट

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca

शैंटेल ऑबर्टिन (Chantalle Aubertin)

प्रेस सेक्रेटरी

ऑफिस ऑफ द मिनिस्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटीज
613.941.0660 | chantalle.aubertin@canada.ca

क्रिस्टीन बुजोल्ड (Christine Bujold)

प्रेस सेक्रेटरी

ऑफिस ऑफ माननीय लॉरी स्कॉट, ओनटैरियो के मिनिस्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर
416.454.1782 | christine.bujold@ontario.ca

सोफिया सूजा-डियास (Sofia Sousa-Dias)

कम्युनिकेशन्स ब्रांच

ओनटैरियो मिनिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर

437.991.3391 | sofia.sousa-Dias@ontario.ca

मीडिया रिलेशन्स

इंफ्रास्ट्रक्चर कॅनेडा

613-960-9251

टोल फ्री: 1.877.250.7154

ईमेल: infc.media.infc@canada.ca

हमें [Twitter](#), [Facebook](#) और [Instagram](#) पर फॉलो करें

वेबसाइट: Infrastructure Canada